



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1938 (श10)

(सं० पटना 981) पटना, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2016

सं० 4-10/विविध-08/2016-2855

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

15 नवम्बर 2016

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2016-17 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बांग्लाभाषी छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् के पत्रांक 120 दिनांक 30.04.2008 द्वारा प्राप्त है तथा यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2007-08 से चलाई जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक स्तर को सुधार कर विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से ₹10,000/- (दस हजार) रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की हो ।

2. पुनः शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 638 दिनांक 21.10.2014 द्वारा इस योजना का विस्तार इंटर परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं तथा मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्र/छात्राओं तक किया गया है जिसके तहत इंटर परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को क्रमशः ₹15,000/- (पंद्रह हजार) रुपये एवं ₹10,000/- (दस हजार) रुपये तथा मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्र/छात्राओं को ₹8,000/- (आठ हजार) रुपये एक मुश्त प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जा रहा है ।

3. बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी प्रोत्साहन के तर्ज पर भाषाई अल्पसंख्यकों में बांग्लाभाषा को समृद्ध, विकसित एवं उन्नत करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री के घोषणानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 से उन छात्र/छात्राओं को भी विद्यार्थी प्रोत्साहन के रूप में ₹10,000/- (दस हजार) की राशि प्रदान की जायेगी, जिन्होंने बिहार

विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा में एक विषय के रूप में बांग्लाभाषा रख कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की हो ।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा में एक विषय के रूप में बांग्लाभाषा रख कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त छात्र/छात्राओं को ₹10,000/- (दस हजार) प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त है ।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 981-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>